

## तहसील चरखारी में सम्पूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, जरूरतमंदों को कंबल वितरित करते हुये की गयी जनसुनवाई, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक निर्देश ।

आज दिनांक 07.01.2023 तहसील चरखारी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में किया गया । सम्पूर्ण समाधान दिवस में आज राजस्व, विकास, पुलिस, विद्युत् आदि विभागों से सम्बन्धित शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष शिकायतों के संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निवारण के लिये प्रदेश सरकार की मंशानुरूप शिकायत निस्तारण को प्राथमिकता दें।

संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टि के आधार पर किया जाए।

पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होने पाये, शिकायत का निस्तारण करते समय शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित करते हुये गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये ।

निर्देश दिये गये कि सभी अधिकारी आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निपटान में लापरवाही न बरतें, शासन की मंशा के अनुरूप सम्पूर्ण समाधान दिवस में आये हर फरियादी की छोटी या बड़ी प्रत्येक समस्या को गम्भीरता से सुना जाए

और धरातल पर शिकायतों का निस्तारण कर समय सीमा के अन्तर्गत ही उनका निराकरण भी सुनिश्चित किया जाए ताकि फरियादियों को इधर उधर अपनी समस्याओं को लेकर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की जाँच की जायेगी। यदि शिकायत का निस्तारण सही नहीं पाया गया तो निश्चित ही निस्तारण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद की सभी तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनपदीय प्रसाशनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे व इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल वितरित किये गये ।



## थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 06.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी उ०नि० विनोद कुमार सिंह व आबकारी पुलिस टीम के संयुक्त नेतृत्व में गठित की गयी पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के कस्बा बेलाताल से दो नफर अभियुक्त क्रमशः 1. सोनिया पत्नी हरिश्चन्द्र कबूतरा उम्र करीब 35 वर्ष व 2. सुमन पत्नी लाल कबूतरा उम्र करीब 30 वर्ष निवासीगण औना डेरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा को मय एक एक प्लास्टिक की पिपिया में क्रमशः 15 ली. + 15 ली. = कुल 30 लीटर कच्ची शराब नाजायज महुआ को बरामद करते हुये पुलिस हिरासत में लिया गया विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 09/2023 व 10/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

### बरामद माल का विवरण:-

एक एक प्लास्टिक की पिपिया में क्रमशः 15 + 15 लीटर = कुल 30 लीटर कच्ची शराब नाजायज महुआ बरामद होना।

## गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम -

1. उ.नि. विनोद कुमार सिंह
2. हे.का. राजकुमार सिंह
3. का. जितेन्द्र कुमार थाना कुलपहाड़
1. आब. निरीक्षक योगेश कुमार गुप्ता
2. म.आ.कां. नेहा सिंह



## थाना चरखारी पुलिस टीम ने 30 अदद अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 06.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा उ.नि.सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया मय हमराह कां. धर्मेन्द्र कुमार, कां. कुलदीप कुमार व का० पवन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक बोरी में 30 अदद क्वार्टर देशी अवैध शराब के साथ अभियुक्त कृष्णा उर्फ कृष्णकांत पुत्र लवकुश राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जिला महोबा को थानाक्षेत्र के ग्राम करहरा खुर्द से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 08/2023 धारा 60 EX ACT में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि.सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. कां. धर्मेन्द्र कुमार
3. कां. कुलदीप कुमार
4. का० पवन कुमार

### गिरफ्तार अभियुक्त-

कृष्णा उर्फ कृष्णकांत पुत्र लवकुश राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जिला महोबा

बरामदगी - एक बोरी में 30 अदद क्वार्टर देशी अवैध शराब



## पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **07.01.2023** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आमजन से संवाद स्थापित कर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **85** वाहनों के ई-चालान किये गये ।



महोबा पुलिस